



**JYOTIRGAMYA ENTERPRISES LIMITED**  
Regd. Office: 118 Vishal Tower, Janakpuri, New Delhi- 110058

CIN: L24100DL1986PLC234423

Ph: +91-7322820131, Email: [jyotirgamyacenterprises@gmail.com](mailto:jyotirgamyacenterprises@gmail.com)  
[Website- www.jelglobe.com](http://www.jelglobe.com)

---

**Date:** 01.08.2024

**To,**  
**BSE Limited**  
**Phiroze Jeejeebhoy Towers**  
**Dalal Street**  
**Mumbai-400001 (Maharashtra)**

**REF: JYOTIRGAMYA ENTERPRISES LIMITED (Scrip Code: 539246) | Symbol: JEL)**

**Subject.: Newspaper Advertisement - Extract of Un-audited Financial Results for the quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2024**

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing the extract of Un-audited Financial Results for the quarter ended on 30<sup>th</sup> June, 2024 published by the Company in Financial Express (English) on page number:50 and Jansatta on page number:19 (Hindi) Newspaper on 01<sup>st</sup> August, 2024.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

**FOR JYOTIRGAMYA ENTERPRISES LIMITED**

Sahil  
Minhaj  
Khan

Digitally signed by  
Sahil Minhaj Khan  
Date: 2024.08.01  
14:02:41 +05'30'

**Sahil Minhaj Khan**  
**Managing Director**  
**DIN: 06624897**



# भारत के सामने बेल्जियम की चुनौती हाकी : हरमनप्रीत की टीम ने अब तक दो मैच जीते और एक ड्रा रहा

पेरिस, 31 जुलाई (भाषा)।

क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर चुकी भारतीय टीम पेरिस ओलंपिक के पूल बी के मैच में गुरुवार को मौजूदा चैंपियन बेल्जियम के रूप पहली कठिन चुनौती का सामना करेगी तो उसे प्रदर्शन में निरंतरता रखनी होगी।

बेल्जियम पूल बी में तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर है, जबकि भारत दो जीत और एक ड्रा के साथ दूसरे स्थान पर है। आस्ट्रेलिया दो जीत और एक हार के साथ तीसरे स्थान पर है। अर्जेंटीना ने भी तीन मैचों में एक जीत, एक ड्रा और एक हार के साथ अंतिम आठ में जगह बना ली है। न्यूजीलैंड और आयरलैंड लगातार तीन हार के साथ वौड से बाहर हो गए हैं। हर पूल से शीर्ष चार टीमों ही अंतिम आठ में पहुंचेंगी। भारत ने पहले

**भारत** ने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया और फिर आखिरी मिनट में किए गए गोल की मदद से अर्जेंटीना को ड्रा पर रोका। **हरमनप्रीत** ने पहले दोनों मैचों में निर्णायक गोल किए, फिर आयरलैंड के खिलाफ पेनल्टी स्ट्रोक पर पहला और पेनल्टी कार्नर पर दूसरा गोल किया।



मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया और फिर आखिरी मिनट में किए गए गोल की मदद से 2016 की चैंपियन अर्जेंटीना को ड्रा पर रोका।

आयरलैंड के खिलाफ भारत ने 2-0 से जीत दर्ज की। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने

पहले दोनों मैचों में निर्णायक गोल दागे और फिर आयरलैंड के खिलाफ पेनल्टी स्ट्रोक पर पहला और पेनल्टी कार्नर पर दूसरा गोल किया। अपना चौथा ओलंपिक खेल रहे मिडफील्डर मनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने भी आयरलैंड के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके कई मौके बनाए।

मनदीप सिंह, ललित उपाध्याय, गुरजंत सिंह और सुखजीत सिंह ने भी दबाव बनाए। अपना पहला ओलंपिक खेल रहे राइट बैक जरमनप्रीत सिंह इस टूर्नामेंट की खोज साबित हुए हैं जिन्होंने अब तक काफी प्रभावित प्रदर्शन किया है। पहले दो मैचों में 19 गोल करीब गंवाने वाली भारतीय टीम के गोलकीपर पी आर श्रेश्मि का तारीफ करनी होगी, जिन्होंने कई गोल बचाए। बेल्जियम के बाद भारत शुक्रवार को आस्ट्रेलिया से खेलेगा।

# श्रीजा एकल प्री क्वार्टर फाइनल में, अब सामना चीन की सुन से

पेरिस, 31 जुलाई (एजेंसी)।

भारत की श्रीजा अकुला ने सिंगापुर की जियान झोंग को 4-2 से हरा कर टेबल टेनिस महिला एकल स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अपने 26वें जन्मदिन पर श्रीजा ने 9-11, 12-10, 11-4, 11-5, 10-12, 12-10 से जीत दर्ज की। इससे पहले मनिंका बत्रा भी अंतिम 16 में जगह बना चुकी हैं। भारतीय टेबल टेनिस के इतिहास में यह पहली बार हुआ है।

श्रीजा ने 51 मिनट तक चला यह मुकाबला पहला गेम गंवाने के बाद जीता। श्रीजा का सामना अब चीन की नंबर एक खिलाड़ी सुन यिंगशा से होगा। पहला गेम हारने के बाद श्रीजा ने दूसरा गेम जीतकर बराबरी की। दूसरे गेम में काफी गलतियां करने के बावजूद वह भाग्यशाली रही कि जीत सकी। इसके बाद उन्होंने जबर्दस्त खेल दिखाते हुए तीसरा और चौथा गेम भी जीत लिया। सिंगापुर की खिलाड़ी ने पांचवां गेम अपने नाम किया लेकिन श्रीजा ने छठे गेम में मैच जीत लिया। पिछले महीने अपने करिअर



**बीच** वालीबाल स्टेडियम एफिल टावर के बिल्कुल पास चैंप डे मार्स में बना है और इसका नाम भी एफिल टावर स्टेडियम है।

की सर्वश्रेष्ठ 24वीं विश्व रैंकिंग हासिल करने वाली श्रीजा ने मनिंका को पछाड़कर भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी होने का जून हासिल किया था।

दो बार की राष्ट्रीय चैंपियन श्रीजा ने जून में लागू में डब्ल्यूटीटी कैंटेडर एकल खिलात जीता था। उन्होंने 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में मिश्रित युगल में शरत कमल के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया था।

# एफिल टावर के सामने बना मैदान प्रशंसकों को आ रहा पसंद

पेरिस, 31 जुलाई (एपी)।

ओलंपिक में बीच वालीबाल का स्थल खिलाड़ियों और इस खेल के प्रशंसकों के अलावा दूसरों के लिए भी सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है।

बीच वालीबाल स्टेडियम एफिल टावर के बिल्कुल पास चैंप डे मार्स में बना है और इसका नाम भी एफिल टावर स्टेडियम है। यह इन खेलों के सबसे दिलकश स्टेडियमों में एक है। ओलंपिक घटक विजेता कतर के चेरिफ यूनुसे ने कहा कि मुझे नहीं पता कि बीच वालीबाल के आयोजन के लिए इस जगह को किसने चुना। जिसने भी यह तय किया वह भी पदक का हकदार है।

उन्होंने कहा कि साइड कोर्ट पर अभ्यास करते समय ऐसा लग रहा था कि हम एफिल टावर के नीचे खेल रहे हैं। हम यहां बीच वालीबाल खेलने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस स्टेडियम की क्षमता 12,860

# स्वियातेक, कर्बर् क्वार्टर फाइनल में, गाफ को डोना ने हराया

पेरिस, 31 जुलाई (एपी)।

विश्व की नंबर एक महिला खिलाड़ी इगा स्विआतेक ने चीन की विंघ्वे में 52वें नंबर की खिलाड़ी वांग जिफू को हरा कर टेनिस प्रतियोगिता के महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

फ्रेंच ओपन में चार बार की चैंपियन स्विआतेक ने वांग को 6-2, 6-4 से हराया के बाद कहा कि यह जीत आसान नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं जानती थी कि वह अच्छे खेल का प्रदर्शन कर सकती है। मुझे पता था कि वह गलतियों का फायदा उठा सकती है। मैंने आक्रामक खेल दिखाया और खेल के अहम पलों में अच्छी टेनिस खेली। स्विआतेक की क्वार्टर फाइनल प्रतिद्वंद्वी आठवीं वरीयता प्राप्त अमेरिकी डेनिएल कोलिन्स होंगी, जिन्होंने कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को 6-0, 4-6, 6-3 से हराया। अमेरिका की दूसरी वरीयता प्राप्त कोकी गाफ को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें क्रोएशिया की डोना वेकिच ने 7-6 (7), 6-2 से हराया। जर्मनी की 36 वीं एंजेलिक कर्बर् ओलंपिक के महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने कनाडा की लेयला फर्नांडीज को 6-4, 6-3 से पराजित किया। वहीं पहले ही जर्मनी के तोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक घोषणा कर चुकी है कि पेरिस ओलंपिक



**निशानेबाजी** पुरुष युगल में स्पेन के राफेल नडाल और कार्लोस अल्कारास ने निदर्लैंड के टालोन ग्रिक्सपुर और वेस्ले कूलहोफ को 6-4, 6-7 (2), 10-2 से हरा कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

उन्के करिअर का अंतिम टूर्नामेंट होगा। महिला एकल के अन्य मैचों में स्लोवाकिया की अन्ना करोलिना शिमडलोवा ने इस साल फ्रेंच ओपन और विंबलडन में उपविजेता रही इटली की जैस्मीन पाओलिनी को 7-5, 3-6, 7-5 से जबकि यूक्रेन की मार्टा कोरस्युक ने यूनान की सातवीं वरीयता प्राप्त मारिया सक्करारी को 4-6, 7-6 (5), 6-4 से हराया। पुरुष वर्ग में आस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपिरिन ने तीन बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्टेन वावरिका को 6-4, 7-5 से पराजित किया। उनका अगला मुकाबला जर्मनी के तोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा।

# अनुष अग्रवाला फाइनल में जगह बनाने में विफल

पेरिस, 31 जुलाई (भाषा)।

भारतीय बुद्धसवार अनुष अग्रवाला ओलंपिक में फाइनल में जगह बनाने में विफल रहे। अनुष अपने चौड़े 'सर कारमेन्तो' के साथ अपने गुण में कुल 66.444 अंक के साथ नौवें स्थान पर रहे। कुल 60 बुद्धसवारों ने भाग लिया, जिन्हें 10-10 के छह गुण में बांटा गया था।

Table with 5 columns: विवरण, समाप्त तिथि, समाप्त पूर्वाह्न, समाप्त पूर्वाह्न, समाप्त पूर्वाह्न. It lists various financial and operational details.

Table with 2 columns: क्र. and अंक. It lists various items and their corresponding scores or values.

Table with 5 columns: क्र., क्रमवर्धक का नाम, समाप्त तिथि, समाप्त पूर्वाह्न, समाप्त पूर्वाह्न. It lists various financial and operational details.

Table with 5 columns: क्र., क्रमवर्धक का नाम, समाप्त तिथि, समाप्त पूर्वाह्न, समाप्त पूर्वाह्न. It lists various financial and operational details.

Table with 2 columns: क्र. and अंक. It lists various items and their corresponding scores or values.

# मनिंका बत्रा को जापान की मियू हिरानो से मिली शिकस्त

पेरिस, 31 जुलाई (भाषा)।

भारत की मनिंका बत्रा बुधवार को यहां पेरिस ओलंपिक टेबल टेनिस महिला एकल स्पर्धा के प्री

क्वार्टर फाइनल में जापान की मियू हिरानो से 1-4 से हार कर बाहर हो गईं। मनिंका को 47 मिनट तक चले अंतिम 16 के मुकाबले में हिरानो ने 11-6, 11-9, 12-14, 11-8, 11-

6 से शिकस्त दी। मनिंका ने दो गेम गंवाने के बाद तीसरे गेम में 14-12 से जीत दर्ज की। लेकिन इसके बाद इस लय को जारी नहीं रख सकी और अगले दो गेम गंवाकर बाहर हो गईं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. एगारू. गाजियाबाद। पता- प्लॉट नंबर 17-18, सेक्टर-14, कौआम्बी, गाजियाबाद-201010। फोन: 8700251062. ई-मेल: arb.ghaziabad@unionbankofindia.com

दिनांक 14.08.2024 की ई-नीलामी बिक्री सूचना के अन्य सभी विवरण समान रहेंगे। दिनांक: 31.07.2024

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India. 1911 से आरंभ किए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911. शाखा कार्यालय: डी-58, मेन रोड, ब्रह्मपुरी, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-110053

वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुसूखा हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत कर्जदार को मांग सूचना। यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्वारा कर्जदारों/ गारंटियों को उनकी गारंटियों में दी गई अग्रण सुविधा को बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर और ब्याज और प्रासंगिक खर्च, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्रारण समी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपकी यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति रिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नहीं कर सकते हैं। बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

Table with 3 columns: कर्जदार एवं गारंटी का नाम, प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण, 13(2) सूचना की तिथि एवं राशि. It lists various financial and operational details.

आपका का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। दिनांक: 31.07.2024

RELAXO FOOTWEARS LIMITED. Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085. Phone: 91-11-46800600, 46800700. Fax No: 91-11-46800692.

# वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) और ऑडियो विज्ञापन माध्यमों ("ओएवीएम") से आयोजित 40वीं वार्षिक आम बैठक की सार्वजनिक सूचना

रिलेक्सो फुटवियर्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों से ध्यान देने का निवेदन है कि कम्पनी के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मुख्यतः 29 अगस्त, 2024 को दिन के 10:30 बजे आयोजित की जाएगी। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("ओवीसी") / अन्य ऑडियो विज्ञापन माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में आयोजित करने के लिए 31 जुलाई, 2024 को निर्धारित की सूचना में निर्धारित प्रक्रिया को लेन-देन करने के लिए ("अधिनियम"), उत्तरके तहत बनाए गए नियमों के सामान्य परिचय संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, कोषित द्वारा जारी सामान्य परिचय संख्या 09/2023 दिनांक 29 सितंबर, 2023 के साथ धारा जाए और परिचय संख्या SEBI(HO/CFD/PO/2023/CR/P/2023/120 dated July 11, 2023 को SEBI(HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CR/2023/167 के साथ धारा जाए। दिनांक 6 अगस्त, 2024 से 24 अगस्त, 2024 तक अधिनियम बोर्ड ("SEBI") द्वारा जारी किया गया।

उपरोक्त परिचयों का अनुपालन करते हुए 40वीं वार्षिक आम बैठक के लिए आमंत्रण सूचना के लिए सितंबर 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कम्पनी के सदस्यों और इसके हकदार अन्य लोगों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी (कंपनी / वीडियो/ओवीसी में पंजीकृत) पर भेजी जाएगी। ये वस्तुवत् कम्पनी की वेबसाइट www.relaxofootwear.com और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। साथ ही, ये रिजॉल्यूट और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), कोफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट https://evoting.kinfintech.com पर भी उपलब्ध होंगे।

कम्पनी ने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा देने की जिम्मेदारी कम्पनी के रिजॉल्यूट और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") कोफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को दी है। सदस्य https://emeetings.KFintech.com पर इनसे जुड़ सकते हैं। कम्पनी ने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग यानी इस्टाब्लिश से मतदान सेवारत देने के लिए कोफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को नियुक्त किया है। ई-वोटिंग प्रक्रिया के निर्देशों के साथ-साथ भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या ईमेल पता से पंजीकृत नहीं करने वाले सदस्य इस रिमोट ई-वोटिंग से मतदान करें इसके लिए 40वीं एजीएम की सूचना में दी जाएगी। इमेल पता की सी माध्यम से भाग लेने उनकी भौतिक अतिरिक्त अधिनियम की धारा 103 के तहत की जाएगी। एजीएम की कार्यवाही कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित मानी जाएगी जिसे एजीएम का स्थान माना जाएगा। ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी दी जाएगी और यदि एजीएम के प्रतिभागी से रिमोट ई-वोटिंग से मतदान नहीं किया हो तो एजीएम में मतदान कर सकते हैं। सदस्यों से निवेदन है कि निम्नलिखित विधि से अपना ई-मेल पता/बैंक खाते का विवरण 22 अगस्त, 2024 या उससे पहले पंजीकृत/अपडेट करें:

Table with 2 columns: भौतिक/शेयरधारिता के माध्यम में, और ईमेल/शेयरधारिता के माध्यम में. It lists various financial and operational details.

**Save Financial Services Pvt Ltd**  
Corporate and Registered Office :- Unit No. 782, 7th Floor, Vegas Mall, Plot No. 6, Sector 14, Dwarka, New Delhi 110075

**POSSESSION NOTICE (APPENDIX IV) Under Rule 8 (3)**

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Save Financial Services Pvt Ltd. (Formerly Known Karmyogee Finance India Pvt Ltd.), under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act, 2002), and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated mentioned below under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the Borrowers (names and addresses mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein below and to the public in general that the undersigned has taken physical possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The borrowers mentioned herein above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the said property and any dealings with the property will be subject to the charge of Save Financial Services Pvt Ltd. (Formerly Known Karmyogee Finance India Pvt Ltd) for an amount as mentioned herein under and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

Name of Borrower, Guarantor	Date of demand notice	Date of Physical Possession	Amount o/s as on date of demand notice
<b>Loan No. - LOANAGUR000029, 1. RAHUL JAIN S/O SATYAJAY JAIN, 2. ANSHIKA JAIN W/O RAHUL JAIN, BOTH RESIDING AT - C-7/105, 2ND FLOOR, YAMUNA VIHAR GARHI MENDU, NORTH EAST DELHI, DELHI-110053</b> <b>Also Ac- B 540 F FLOOR AND SECOND FLOOR GALI NO. 2, BLOCK B MEET NAGAR SHAHDARA, NEW DELHI 110032, SR. NO. 1 ALSO AT - SHRI RAM MARKETING B2/4, MAIN WAZIRABAD ROAD MEET NAGAR, DELHI-110094</b>	12-01-2024	25-07-2024	Rs. 67,83,070.56/- as on 03-jan-2024

**Description of the Immovable Property** - ALL THAT PIECE AND PARCEL OF ENTIRE RESIDENTIAL BUILT-UP FIRST AND SECOND FLOOR UP TO CEILING LEVEL WITHOUT ROOF AND TERRACE RIGHTS, ALONG WITH ITS WHOLE OF THE STRUCTURE BUILT AT SITE, WITH ALL FIXTURE AND FITTINGS FITTED THEREON, WITH THE RIGHT TO USE THE TERRACE OF TOP FLOOR ONLY FOR MAINT NANCE AND REPAIR OF WATER TANK AND DISH ANTENNA, BEARING THE PROPERTY NO B-540, MEASURING AREA 80 SQ. YDS. I.E. 66.88 SQ. MTRS., OUT OF KHASRA NO.1000/526/2, SITUATED IN THE AREA OF VILLAGE SABOLI IN THE ABADI KNOWN AS GALI NO. 2, BLOCK B, MEET NAGAR ROAD, ASHOK NAGAR, ILAQA SHAHDARA, DELHI-110093, WITH ALL COMMON FACILITIES SUCH AS COMMON STAIRS, COMMON PASSAGE, COMMON ENTRANCE, COMMON PARKING IN STILL, TOGETHER WITH THE PROPORTIONATE, IMPARTABLE, INDIVISIBLE, UNDIVIDED OWNERSHIP RIGHTS OF THE LAND THEREUNDER AND BOUNDED OF THE SAID PROPERTY ARE AS UNDER:- EAST:- PROPERTY OF OTHERS, WEST:- ROAD 15 FT WIDE, NORTH:- PROPERTY OF OTHERS, SOUTH:- PROPERTY OF OTHERS.

Date - 25.07.2024, Place - Delhi  
AUTHORIZED OFFICER, Save Financial Services Pvt Ltd

**Save Financial Services Pvt Ltd**  
Corporate and Registered Office :- Unit No. 782, 7th Floor, Vegas Mall, Plot No. 6, Sector 14, Dwarka, New Delhi 110075

**POSSESSION NOTICE (APPENDIX IV) Under Rule 8 (1)**

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Save Financial Services Pvt Ltd. (Formerly Known Karmyogee Finance India Pvt Ltd.), under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act, 2002), and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated mentioned below under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the Borrowers (names and addresses mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein below and to the public in general that the undersigned has taken physical possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The borrowers mentioned herein above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the said property and any dealings with the property will be subject to the charge of Save Financial Services Pvt Ltd. (Formerly Known Karmyogee Finance India Pvt Ltd) for an amount as mentioned herein under and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

Name of Borrower, Guarantor	Date of demand notice	Date of Symbolic Possession	Amount o/s as on date of demand notice	Description of the Immovable Property
<b>Loan No. - LOANAGUR0000746, 1.SONU S/O MAHINDER SINGH, 2.MAMTA W/O SONU, 3. 1.AMIT S/O MAHINDER SINGH, 4. MAHENDER SINGH S/O HARBAJ, All R/o - NO. 73 SULTAN PATTI, WARD NO. 23, KHANDSA, GURGAON, HARYANA 120025. Also at - H. NO. 173, SULTAN PATTI, WARD NO. 23, GURGAON, HARYANA - 1220041</b>	04-03-2024	29.07.2024	Rs. 24,29,797.01/- as on 27-jan-2024	ALL THAT PIECE AND PARCEL PROPERTY HOUSE NO. 73, PART KHASRA NO. 461(2-15-0), 712/3/1, (0-0-0), 998 (0-11-0), KHEWAT KHATA NO. 180/223, WARD NO. 3, SULTAN PATTI, WAKA SHIVANA MAUJA, VILLAGE KHANDSA, TEHSIL KADIPUR, DISTRICT GURUGRAM, HARYANA-122004.

Date - 29.07.2024, Place - Gurugram, Haryana  
AUTHORIZED OFFICER, Save Financial Services Pvt Ltd

**UMMEED HOUSING FINANCE PVT. LTD**  
CIN: U65922HR2016PTC067884  
Corp. Offt: Unit 809-815, 8th Floor, Tower A, Emaar Digital Greens, Golf Course Extn. Road, Sector 61, Gurgaon, Haryana 122002

**SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES**

**RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002**

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower (s) and guarantor (s) whose details are given in below mentioned table that the below described immovable property mortgaged/charged to the secured creditor the Physical Possession of which has been taken by the authorized officer of M/s Ummeed Housing Finance Pvt. Limited secured creditor on 28.07.2024, pursuant to assignment of debt in UHFPL, will be sold on 08.09.2024 "As is where is" "as is what is" and "whatever there is" basis for realization of company's dues.

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY WITH KNOWN ENCUMBRANCE, IF ANY**  
**PROPERTY DESCRIPTION:** All that part and parcel of property of LG Flat No. UGF-4, without roof right built on plot no.B-8, Area Measuring 37.16 Sq.mtrs., Comprised On Kh. No.365, Situated At Ruby Enclave Village Saidulabab, Pargana & Tehsil Lam Ghazalabad, Bounded As-As Per Technical Report 29.11.2018, East-Own, West-Entry, North-UG-1, South-UG-3

BORROWER(S) & GUARANTOR(S) NAME & ADDRESS	DATE & TIME OF SUBMISSION OF EMD LAST DATE & TIME OF THE PROPERTY INSPECTION	RESERVE PRICE/ EMD OF THE PROPERTY BID INCREMENT
1. Lalit Kumar S/o Satendra Kumar Rastogi (Borrower) 2. Nitica W/o Lalit Kumar (Co-Borrower) Both Above Residing At- H. No. 423, Gali No. 14, First Floor, Shiv Vihar Phase-VI Karawal Nagar, Delhi-110094 Also At- H. No. A-35 Khushal Park Loni Delhat Ghazalabad-201102	Auction Date: 08.09.2024 Between 10:00 PM To 1:00 PM With Unlimited Extension of 5 Minutes Last Date of Submission of EMD With KYC is 04.09.2024 up to 7:00 P.M. (IST) Date of Inspection: 02.09.2024 Between 11:00 AM to 4:00 PM (IST)	Reserve Price: Rs. 5,50,000/- Earnest Money Deposit: Rs. 55,000/- Bid Increment: Rs. 15000/- & Such Multiples

Total Amount Dues of Rs. 9,82,790/- as on 30.07.2024 + Further interest and other charges from 31.07.2024  
Place: Gurugram, Haryana  
Authorise Officer, Gurgaon Treaty Mobile: 9550957610  
Date: 01.08.2024  
UMMEED HOUSING FINANCE PVT.LTD.

**बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra**  
महान शहराची बँका

**एक परिवार एक बैंक**

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Bank of Maharashtra under the securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of the powers conferred under Sub-Section (12) of Section 13 read with Rule 8 of the security interest (Enforcement) Rule, 2002, issued a Demand Notice dated mentioned below calling upon the borrower and guarantor to repay outstanding amount (mentioned below) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Notice was sent by Regd. AD post + Courier

The borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the borrower/guarantors and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this 26th day of July, 2024.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the properties will be subject to the charge of Bank of Maharashtra, HALDWANI Branch for an amount herein above mentioned.

The borrower's attention is invited to the provisions of sub-section 8 of Sec. 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

S. No.	Name & Address of Borrowers & Guarantor (S)	Details of Property	Date of Demand Notice Date of Possession Notice	Amount Due
1.	Mr. Vijay Kumar S/o Mr. Ram Kishor Address: Parvatiya Mohalla Ward-12, Ujala Nagar, Haldwani, District Nainital, Uttarakhand-263139	Collateral Security: Equitable Mortgage of residential property Kharsa No. 9, Mi Mauja, Haripur Purnanad Pargana Bhabhar, Khata No. 6 area 144.05 Sq meter of 1550 Sq Feet, Teshil Haldwani, Distt. Nainital, Uttarakhand and bounded as:- East: 10 ft. wide road, West: Land of Rakesh Sah, North: Land of Vijaya Singh, South: Land of Sanjay Pal	19.03.2024 26.07.2024	Rs 10,38,900.26 + interest and other charges / expenses w.e.f. 19.03.2024
	Mrs. Suman W/o Mr. Vijay Kumar Address: Village Haripur Purnanad Tal, Haldwani, District Nainital, Uttarakhand-263139			

Date - 31.07.2024 PLACE: HALDWANI Authorized Officer

**Ujjivan SMALL FINANCE BANK**  
SECOND FLOOR, GMTT BUILDING D-7 SECTOR 3 NOIDA UP 201301

**POSSESSION NOTICE (for Immovable property) [Rule 8(1)]**

Whereas, the undersigned, being the Authorised Officer of Ujjivan Small Finance Bank Ltd., under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice to borrower/ Guarantor on the dates mentioned hereunder; calling upon the Borrower(s) / Guarantor(s) to repay the amount mentioned in the respective demand notice within 60 days of the date of the notice. The Borrower/Co-Borrower/Mortgagor/having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Mortgagor, Co-Borrower/Mortgagor, Co-Borrower and the public in general that the undersigned has taken SYMBOLIC POSSESSION of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002, on the dates mentioned against each account.

The Borrower/Mortgagor's, Co-borrower/Mortgagor's and Co-borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

The Borrower/Mortgagor, Co-Borrower/Mortgagor and Co-Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Ujjivan Small Finance Bank Ltd. for an amount as per the amount(s), mentioned herein below besides interest and other charges / expenses against each account.

Name of address of Borrower/ Co-Borrower/Mortgagor	Description of the Immovable property	Date of Demand Notice and Date of possession	Amount as per demand notice
1) Deepak Kumar Upadhyay S/o Udayavir Singh Upadhyay R/o Raj Vihar Jagjeetpur, Kankhal, Near Divine Heights School, Haridwar, Uttarakhand - 249408, Also At: M/s Laxmi Dairy & Confectionery Old Near Shiv Lok Colony, Bhagat Singh Chowk, Haridwar, Uttarakhand - 249408; 2) Chandra Prabha Upadhyay W/o Deepak Kumar Upadhyay R/o Raj Vihar Jagjeetpur, Kankhal, Near Divine Heights School, Haridwar, Uttarakhand - 249408, In Loan Account No. 222979600000001	All that Part & Parcel of Residential house constructed on Plot B-26, having area 330 Sq. Ft., situated at Raj Vihar, Phase - 3, Village Jagjeetpur, Tehsil & District Haridwar, Uttarakhand which is bounded as follows: Boundaries: East: Part of Plot No. B-26 West: Way North: Way South: Part of Plot No. B-26 The Property belongs to Chandra Prabha Upadhyay W/o Deepak Kumar Upadhyay i.e. no. 2 among you.	Date of Demand Notice: 15.01.2024 Date of possession: 26.06.2024	Rs. 6,83,464/- as on 08-01-2024

Date: 01.08.2024 Place: Uttarakhand Authorized Officer

**SBI**  
STATE BANK OF INDIA

**APPENDIX IV (See Rule 8(1)) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)**

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the State Bank of India under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 10.04.2024 calling upon the Borrowers/Guarantor/Mortgagor/M/s Himsak Systems Private Limited through (1) Sh. Subhash Sharma S/o Sh. Hari Kishan Sharma (Guarantor & Director), (2) Sh. Pratik Sharma S/o Sh. Subhash Sharma (Guarantor & Director), & (3) Sh. Shephakha Sharma W/o Sh. Subhash Sharma (Guarantor), all three residing of Flat No. 40/308 Heritage City, Near M. G. Road Metro Station, M.G. Road, Gurgaon, Haryana-122102 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 7,10,89,898.00 (Rupees Seven Crore Ten Lakh Eighty Thousand Eight Hundred Ninety Eight Only) on 04.08.2024 further request at the contractual rate on the aforesaid amount with incidental expenses, costs, charges, etc. until payment in full within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice.

The borrower/mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 29th day of July of the year 2024.

The Borrower's/Guarantor's/Mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of State Bank of India. Stressed Assets Recovery Branch, 3rd Floor, Matrix Wall, Sector-4, Jawahar Nagar, Jaipur for an amount Rs. 7,53,45,481.00 (Rupees Seven Crore Fifty Three Lacs Fourty Five Thousand Four Hundred Eighty One Only along with charges) as on 26.07.2024 with future interest at the contractual rate on the aforesaid amount with incidental expenses, costs, charges, etc. thereon until payment in full. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**  
All that part & parcel of Residential Property situated at Flat No. 308, Block No. 40 (3rd Floor), Phase-II, Heritage City, Near M. G. Road Metro Station, M.G. Road, Gurgaon, Haryana standing in the name of Shri Subhash Sharma. Total measuring area - 1854.82 Sq. Feet Bounded by: East- Entrance Passage, West- Flat No. 307, North- Flat No. 305, South- Internal Road

Date: 29.07.2024  
Place: Jaipur  
Authorized Officer  
State Bank of India

**JM FINANCIAL**  
Corporate identify Number: U67190HM2007PLC74287  
Registered Office : 7th Floor, Chery, Appasahab Marath Park, Prabhadevi, Mumbai 400025  
Contact Person: 1. Nikki Kumar - 9650606340 2. Rohan Sawant - 9833143013 3. Prashant Monde - 022 - 6224 1676  
Website - www.jmfinancial.com

**E-Auction Sale Notice - Subsequent Sale**

That Primal Capital and Housing Finance Ltd have assigned a pool of Loan (including below mentioned Loans) together with underlying security interest thereof along with all the rights, title and interest thereon under Section 5 (1) (b) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act, 2002) vide an assignment agreement dated March 23, 2023 (the Assignment Agreement) in favour of JMIFARC (JM) (herein referred as Assignee) acting in its capacity as trustee of JMIFARC - Aranya - Trust. Its to notify that PCHFL is authorized and appointed to act as Service Provider / Collection agent to facilitate all operational and procedures processes vide Assignment / Service Agreement.

Pursuant to taking possession of the secured asset mentioned hereunder by the Authorized Officer of Secured Creditor (the SARFAESI Act, 2002 for the recovery of amount due from borrower/s, offers are invited by the undersigned for purchase of immovable property, as described hereunder, which is in the physical possession, on "As is Where is Basis", "As is What is Basis" and "Whatever is There is Basis", Particulars of which are given below:

Loan Code / Branch / Borrower(s) / Co-Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Property Address- final	Reserve Price	Earnest Money Deposit (EMD) (10% of RP)	Outstanding Amount (24-07-2024)
Loan Code No.: 23400001734, Agra (Branch), Aksh Gupta (Borrower), Prabh Gupta (Co-Borrower 1) Siddharth Raj (Guarantor 1)	Dt: 16-06-2020, Rs. 87,1927/- (Rs. Eight Lakh Seventy One Thousand Nine Hundred Twenty Seven Only)	All The piece and Parcel of the Property having an extent :- Plot On-khasra No-2116 Wanke Nagla Rambal Mauza Narach Agra, Agra, Agra-282006 Boundaries As :- North : Plot Of Anita Devi South : Others property East : 19'-0" Ft Wide Road West : Others property	Rs. 914700/- (Rs. Nine lakh Fourteen Thousand One Hundred Only)	Rs. 91470/- (Rs. Ninety One Thousand Four Hundred Ten Only)	Rs. 14,79,940/- (Rs. Fourteen lakh Seventy Nine Thousand Four Hundred Four Only)

DATE OF E-AUCTION: 21-08-2024, FROM 11.00 A.M. TO 1.00 P.M. (WITH UNLIMITED EXTENSION OF 5 MINUTES EACH), LAST DATE OF SUBMISSION OF BID: 20-08-2024, BEFORE 4.00 P.M.

For detailed terms and conditions of the Sale, please refer to the link provided in https://www.jmfinancial.com/Home/Assetsforsale OR https://www.bankauctions.in.

**STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER SARFAESI ACT TO THE BORROWER/GUARANTOR / MORTGAGOR**

The above mentioned Borrower/Guarantor are hereby notified to pay the sum as mentioned in section 13(2) notice in full with accrued interest till date before the date of auction, failing which property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost from borrower/guarantor.

Date : 01.08.2024 | Place : Delhi | Sd/- (Authorized Officer), (Aranya - Trust)

**JYOTIRGAMYA ENTERPRISES LIMITED**  
CIN: L24100DL1986PLC234423  
Regd. Off: 118, VISHAL Tower, JANAKPUR, DELHI-110058  
Email Id: jyotirgamyacenterprises@gmail.com Website: www.jglglobe.com

Extract of Statement of Standalone Un-audited Financial Result For The Quarter Ended 30th June, 2024 (Rs. in Lacs.)

Particulars	Quarter ended (30/06/2024) (Unaudited)	Previous Quarter ended (31/03/2024) (Unaudited)	Corresponding 3 months ended in the previous year (30/06/2023) (Unaudited)	Previous year ended (31/03/2024) (Audited)
<b>(Refer Notes Below)</b>				
1. Total Income from Operations	0.00	0.00	0.84	0.00
2. Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)*	-0.04	-0.05	-0.03	-1.22
3. Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)*	-0.04	-0.05	-0.03	-1.22
4. Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-0.04	-0.05	-0.05	-1.33
5. Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)*)	-0.04	-0.05	-0.05	-1.33
6. Equity Share Capital	230.00	230.00	230.00	230.00
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	57.21	57.25	57.25	55.92
8. Earning Per Share (of Rs.1/- each) (for continuing and discontinued operations)				
1. Basic:	0.00	0.00	0.00	-0.06
2. Diluted:				

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of Quarter Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity
- The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial items due to changes in accounting policies shall be disclosed by means of footnote.
- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules/IAS Rules, whichever is applicable.

Date: 31.07.2024 Place: Delhi  
Sd/- SAHIL MINHAJ KHAN Designation: Managing Director DIN: 06624897

**AXIS BANK**  
Retail Asset Centre: Axis Bank Ltd., Axis House, Tower T-2, 2nd Floor, 1-14, Sector-126, Noida Expressway, Jaypee Greens, Westtown, Noida (U.P.)-201301 Corporate Office: Axis House, Block-B, Bombay Deyvi, Mumbai, Maharashtra-400025 Registered Office: Trilokh, 3rd floor, opposite Samartheswari Temple, Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006

**POSSESSION NOTICE UNDER SARFAESI ACT 2002**

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of Axis Bank Ltd. under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice to the Borrower(s)/ Co-Borrower(s) / Guarantor(s) / Mortgagor(s) mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s) / Guarantor(s) / Mortgagor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/ Co-Borrower(s) / Guarantor(s) / Mortgagor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s) / Guarantor(s) / Mortgagor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Axis Bank Ltd. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s) / Guarantor(s) / Mortgagor(s) attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of Borrower / Co-borrower	Description of Property	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount in Demand Notice (Rs.)
1. M/s Digital Dreamz IT Engineers Pvt Ltd, Having Office At Shop No. 411, KG-1, Main Market, Pvr Road, Vikas Puri, New Delhi - 110018 Through its Directors	All That Piece And Parcel Of Residential Flat Bearing No. 47 At Second Floor Without Roof / Terrace Rights, Plinth Area Measuring 1350 Sq Ft (125.41sq Mtr) Situated in The Gated Layout of 'Gauri Arun Apartments', Known As 'Vaishali Apartments', New Delhi-110018 Owned By Smt. Delhi 110018 Parnal, New Delhi-110018 Also Both At: 411, KGI, Main Market, Pvr Road, Vikas Puri, New Delhi-110018	28-JUNE-2024	29-07-2024	2,09,79,247.38/- (Rupees Two Crore Nine Lakh Seventy Nine Thousand Two Hundred Forty Seven & Thirty Eight Paise Only)

The above-mentioned Borrower(s)/ Co-Borrower(s) / Guarantor(s) / Mortgagor(s) are hereby given a 30 days' Notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days' from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date: 01-08-2024, Place: Noida  
Authorized Officer, Axis Bank Ltd.

**BAJAJ FINANCE LIMITED**  
Corporate Office Extn.: 3rd Floor, Panchshil Tech Park, Viman Nagar, Pune - 411 014, Maharashtra, India Tel: +91 20 7157 6403 | Fax: +91 20 7157 6364, Registered Office: C/o Bajaj Auto Limited complex, Mumbai - Pune Road, Akurdi, Pune - 411005, Maharashtra, India. Branch Name - 1st Floor, Black Building, Manu Bhanja Road, Near IICI Bank, Aligarh - 202 001 (UP)

**Possession Notice**

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of M/s Bajaj Finance Limited, (BFL) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 & in exercise of powers conferred under section 13 (2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notice to the Borrower(s) / Co-borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower(s) / Co-borrower(s) / Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Co-borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 (1) of the said Rules. The Borrower(s) / Co-borrower(s) / Guarantor(s) in particular & the public in general are hereby cautioned not to deal with the below said property and any dealings with the said property will be subject to the first charge of BFL for the amount(s) as mentioned herein under with future interest thereon.

Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) (LAN No, Name of the Branch	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date and Amount	Loan Number(s)	Symbolic Possession
1. DARAKISHAN THR. ITS PROP. MOHD. SHAH NAWAZ, R/O, Nagla Anshik Ali Mathura Bye Pass Road Aligarh 202001. Contact No. 6397252162 E-Mail Id- ak168307@gmail.com Also at, Part of Kharsa No.3172 & 3173 Kasba Koll Near Turkman Gate Pargana and Tehsil-Koll, District Aligarh, Uttar Pradesh 202001, Z. No. MOHD. SHAHNAWAZ S/O MOHD. HAJI FAREED, R/O, Haddi Godam Choraha Magdoo Road Turkman Gate Koll Aligarh Uttar Pradesh India 202001, Contact - 6397252162, E-Mail ID- AK168307@gmail.com 3. RUKHSANA C/O MOHD FAREED R/O Haddi Godam Choraha Magdoo Road Turkman Gate Koll Aligarh Uttar Pradesh India 202001, Contact- 6397252162, E-Mail ID- AK168307@gmail.com	All the piece and parcel of Part Of Kharsa No.3172 & 3173 Kasba Koll Near Turkman Gate Pargana and Tehsil-Koll, District Aligarh, Uttar Pradesh 202001 along with proportionate share in 2000/along with proportionate share in common areas (Area Admeasuring: 1800 Sq. R) Boundaries : On East- Plot of Mohammad Khalid; On West- Plot of On North- Khet of Bhudev; On South- Rasta 12 Feet Wide	04.05.2024 & Rs. 31,50,795/- (Rupees Thirty One Lakhs Fifty Thousand Seven Hundred Ninety Five Only)	P566P8L4 684369	29.07.2024

This step is being taken for substituted service notice. The above Borrowers and/or Co-Borrowers/ Guarantors are advised to make the payments of outstanding along with future interest within 60 days from the date of publication of this notice failing which (without prejudice to any other right remedy available with Bajaj Finance Limited) further steps for taking possession of the Secured Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The parties named above are also advised not to alienate, create third party interest in the above mentioned Properties. On which Bajaj Finance Limited has the charge.

Date - 01/08/2024, Place - Aligarh  
Authorized Officer, For M/s BAJAJ FINANCE LIMITED

**CONTINENTAL PETROLEUMS LIMITED**  
Regd Office: A-2, OPP. UDOYG BHAWAN, TILAK MARG, C-SCHEME, JAIPUR RAJASTHAN 302005  
CIN: L23201RJ1986PLC003704 • Email: cs.competco@gmail.com; competco@gmail.com  
Website: www.comtel.in • Phone No: 0141-2222232

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended on 30th June, 2024 (Rs. in Lakhs)

Particulars	3 months Ended	Preceding 3 Months ended	Corresponding 3 months ended in previous year	Previous Year Ended
	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited
Total income from operations (net)	3538.86	1881.89	1207.40	5302.91
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or extraordinary items)	185.43	157.11	54.16	384.85
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	185.43	157.11	54.16	384.85
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	185.43	157.11	54.16	384.85
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	128.94	140.17	33.02	273.31
Equity Share Capital (Face value per Share Rs. 5/- per Share) Reserve excluding Revaluation Reserve	278.03	278.03	278.03	278.03
Earnings Per Share				
Basic	2.32	2.52	0.59	4.92
Diluted:	2.32	2.52	0.59	4.92

**Notes:**

- The above Unaudited Financial Results of the company for the quarter ended June 30th, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and on its recommendation, have been approved by the Board of Directors at its meeting held on 30th July, 2024
- The Company has business segment 'Lubricants & Grease Manufacturing & Distribution, Incineration Service, Turkey Projects.
- Figures in respect of the previous year/period have been rearranged / regrouped wherever necessary to correspond with the figures of the current year/period
- The financial Result are prepared in accordance with the companies ( Indian Accounting Standards ) Rules, 2015 ( as amended) as prescribed under section 133 of the companies act 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable and in terms of Regulation 33 of the SEBI ( Listing and other Disclosure Requirements ) Regulations 2015 and SEBI circular dated 5 July, 2016

For CONTINENTAL PETROLEUMS LIMITED  
Sd/- Madan Lal Khandelwal (Chairman & Managing Director) DIN: 00414377  
Date: 30.07.2024

**The Jammu & Kashmir Bank Limited**  
IMPARED ASSETS PORTFOLIO MANAGEMENT DEPARTMENT  
Zonal Office (Delhi) Plot No.132-134 Sector 44, Gurgaon (T) 0124-4715800 Email: iampd.del@jkbankl.com

**J&K Bank**  
Serving To Empower

**E-Auction Notice**  
**(For sale of immovable properties under the SARFAESI Act, 2002) "Appendix IV-A, Refer Proviso to Rule 8(6)"**

Notice is hereby given to the public in general and to the borrowers and guarantors in particular that the below mentioned property mortgaged to secured creditor (Jammu & Kashmir Bank Ltd), the possession of which has been taken by the Authorized officer of the Secured Creditor (Jammu & Kashmir Bank Ltd) under Section 13(4) of the SARFAESI Act, 2002 will be sold through E-auction on "AS IS WHERE IS" "AS IS WHAT IS" AND